



EMA INDIA LIMITED

CIN:L27201UP1971PLC003408

Mfrs. of induction
Heating and Honing
Machines & Accessories

Date: 02/02/2021

To,
Manager-CRD,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001

Dear Sir / Ma'am,

Sub: Copy of Advertisement published in Newspaper- Intimation of Board Meeting of the Company for Quarter and nine months ended 31st December, 2020.

Re: EMA India Limited; Scrip Code: 522027

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith the copies of advertisement published in 'Financial Express' English Edition and 'Rashtriya Sahara' Hindi Edition on 02nd February, 2021 for intimation of Board Meeting for Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and nine months ended 31st December, 2020.

Kindly take the above on record.

Thanking You,

Yours faithfully

For EMA India Limited

#circular
(Namita Sabharwal)
Company Secretary and Compliance Officer
Membership no.- A35411

Encl: As above

Regd. Office & Postal Address
EMA INDIA LTD.
C-37, Panki Industrial Area
P.O. Udyog Nagar
Kanpur-208 022
INDIA

Honing Machine Division
GEHRING INDIA
(A Div. of Ema India Ltd.)
Vill. Maharajpur, 19th Km. Stone
P.O. Tantryaganj, Mandhana
Kanpur Dehat-209 203
INDIA

EMA Tel. : +91-512-691210-11-12-13
Fax : +91-512-691214
GEHRING Tel. : +91-512-20105, 20107
Fax : +91-512-20106
E-mail : emain@lw1.vsnl.net.in

RAJASTHAN TUBE MANUFACTURING COMPANY LTD.
CIN: L27107RJ1995PLC03370
REGD. OFFICE: 28-37, Banke Bihari Ind. Area, Jatawal Mod, Maharkala Road, Village Dehra, Chomu, Jaipur-303086. Tel: +91-9828312222. E-mail: rajtube@hotmail.com | Website: www.rajtube.com

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1) (a) read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February 2021 inter alia, to consider and approve the un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.rajtube.com and on Stock Exchange Website at www.bseindia.com.

For RAJASTHAN TUBE MFG. CO. LTD.
Place: Jaipur
Date: 01.02.2021
(Anshu Gupta)
COMPANY SECRETARY

CORPORATE MERCHANT BANKERS LIMITED
Regd. Off: UG-24, Vishwadeep Tower, District Centre, Janak Puri, New Delhi-110055
CIN: L74899DL1994PLC061107
Email ID: cmbdtdh@gmail.com
Ph. No: 91-11-65382244. Website: www.cmbt.co.in

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 & Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of M/s Corporate Merchant Bankers Limited will be held on Wednesday 10th February 2021 at Regd. Office at 3.30 p.m., inter-alia to consider and approve Un-Audited Financial Results of the Company for the Financial Year and Quarter ended 31st December 2020.

Further details will be available on the website of the Company i.e. at www.cmbt.co.in and also on the website of BSE Limited & MSEI Limited i.e. at www.bseindia.com, & www.msse.in where the Company's shares are listed.

For Corporate Merchant Bankers Limited
Place: New Delhi
Date: 01.02.2021
Parme Venkateshwar Reddy
Director
Din : 06446233

ARCHIDPLY INDUSTRIES LIMITED
CIN: L85110UR1995PLC008627
Regd. Office: Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estates, Sidouli, Parli Nagar, Udhm Singh Nagar, Rudrapur, Uttarakhand - 263153
Phone : 05944-250270, Fax : 05944-250289
Cor. Office : 2/9, 1st floor, W.H.S. Kriti Nagar, New Delhi - 110015
Phone: 011-45642555. Website: www.archidply.com
Email : cs@archidply.com

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on February 08, 2021, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2020.

By order of the Board
Sd/-
Atul Krishna Pandey
Place: New Delhi
Date: 30-January-2021
Company Secretary

FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
Regd. Office:- 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001
Tel. No.: 011-43585000, Fax: 011-43585015,
E-mail: fir.nfo@icml.com, Website: www.fir.co.in
CIN: L51503DL1986PLC024329

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulation, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday, 10th February, 2021 at 04:30 PM inter alia to consider and approve the standalone unaudited financial results of the Company for the Quarter year ended 31st December, 2020.

The information is also hosted on the Company's at www.fir.co.in and may also be accessed on the websites of the stock exchanges at www.msse.in, & www.bseindia.com.

For Fortune Industrial Resources Limited
Sd/-
Bharti Company Secretary
Place: Delhi
Date: 01.02.2021
ACS-34492

Hemisphere Properties India Limited
CIN: U70101DL2005GO132162
Reg. Office Address: Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110001

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47 (1)(a) of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulation 2015 meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, 09 February, 2021**, inter alia, to consider and approve Unaudited Financial Statement for the quarter ended on 31st December 2020. The intimation is also available on website of Company (www.hpil.co.in) and on the website of stock exchange (www.bseindia.com).

Date: 01.02.2021
Place: New Delhi
For Hemisphere Properties India Limited
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

HONDA Honda India Power Products Limited
(Formerly known as Honda SIEL Power Products Limited)
Regd. Office: 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi - 110025
CIN: L40103DL2004PLC203950
E-Mail: hslegal@hopp.com
Website: www.hondaindiapower.com

Company Notice
Pursuant to Regulation 29(1) and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that sixth meeting of Board of Directors of the Company for the Financial Year 2020-21 will be held on Thursday, February 11, 2021 to consider and approve, inter-alia, Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

This information is also available on website of the Company (www.hondaindiapower.com), BSE Ltd. (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

Place : Greater Noida
Date : February 01, 2021
Sd/-
Santosh Kumar Pattanayak
Company Secretary

EMA INDIA LIMITED
Regd. Office: C-37, Park Industrial Area, PD Indraprastha, Kirti Nagar, New Delhi-110028
Tel: +91-512-266120-11
Website: www.ema.co.in
CIN: - L27201UP1971PLC003408

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday 11th February, 2021 inter-alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's corporate website (www.ema.co.in) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com). For EMA INDIA LTD.

Date: 01.02.2021
NANITA SABHARNAL
Place: Kanpur (Company Secretary)

ADHARSHILA CAPITAL SERVICES LIMITED
[Corporate Identity Number (CIN): L65100DL1993PLC056347]
Regd. Off: 7-C, 1st Floor, 'J' Block Shopping Centre, Saket, New Delhi-110 017
Tel: 0120-4525000, Website: www.adharshilacapital.in
E-mail- adharshilacapital@gmail.com

NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February, 2021, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2020.

This Notice is also available on the website of Company i.e. www.adharshilacapital.in and on the website of stock exchange i.e. www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board
Sd/-
(Harmand Tyagi)
DIRECTOR
DIN-00159923

ALAMELU CHARITABLE FOUNDATION
Notice Inviting Tender
Alamelu Charitable Foundation (ACF) invites bids from eligible bidders for the Tender for Supply, Installation and Commissioning of the following Equipment/ Goods from Manufacturers/ Authorized Vendors for its Hospitals spread across India:
Tender No: 1: ACF/CC/Other OT Equipment/ 2021
For OT Equipment
Last Date of Submission: 22.02.2021 by 6 PM
Tender No: 2: ACF/CC/Blood Storage/2021
Blood Storage & Blood Bank Equipment
Last Date of Submission: 22.02.2021 by 4 PM

Interested parties may download Tender document from e-tender portal <https://acffprocure247.com> and submit online bids by following the prescribed process.

Sd/-, Director, Alamelu Charitable Foundation, Mumbai-400005

VOLTAMP TRANSFORMERS LIMITED
CIN: L31100GJ1967PLC001437
Regd. Off: Makrapura, Vadodra - 390014.
Ph: 0265 3041403/480, Fax: 3041499
E-mail: vnm_ipo@voltamptransformers.com
Website: www.voltamptransformers.com

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, February 11, 2021 at the Registered Office of the Company inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results for the Quarter ended December 31, 2020.

This information is also available on the website of the Company at www.voltamptransformers.com and on website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com

By order of the Board,
Sd/-
Sanket Rathod
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Vadodra
Date: 01-02-2021

GLOBUS SPIRITS LIMITED
CIN: L74899DL1993PLC052177
Regd. Office:- F-0, Ground Floor, The Mira Corporate Suites, Plot No.182, Ishrat Nagar, Mathura Road, New Delhi-110065
Ph: 011-66424600, Fax: 011-66424629.
E-mail: corporateoffice@globusgroup.in, Web: www.globusspirits.com

NOTICE
In terms of the Clause 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 08th February, 2021, inter-alia, to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 3rd Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2020.

The said notice is also available on the company's website www.globusspirits.com and also available on BSE & NSE website.

For Globus Spirits Limited
Sd/-
Santosh Kumar Pattanayak
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: -01th February 2021

WALCHANDNAGAR INDUSTRIES LTD.
Regd. Off: 3, Walchand Terraces, Tardeo Road, Mumbai - 400034
CIN: L74899MH1999PLC030291
Tel: (022)23612195 Fax: (022) 23634527
E-mail: investors@walchand.com
Website: www.walchand.com

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, February 10, 2021, to consider, approve and take on record, amongst other business, the Un-audited (Reviewed) Financial Results and Standalone Financial Report of the Company for the Quarter ended December 31, 2020.

The information is also available on the website of the Company at www.walchand.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at BSE website at www.bseindia.com and at NSE website at www.nseindia.com.

For Walchandnagar Industries Ltd.
Sd/-
G. S. Agrawal
Vice President (Legal & Taxation)
Place: Mumbai
& Company Secretary
Date: February 01, 2021

KIRORI MAL COLLEGE
(University of Delhi)
North Campus, Delhi - 110007 Phone No.011-27667861
website: www.kmcollege.ac.in

TENDER NOTICE
Online item rate tenders are invited in two bid system (technical and financial) for the following works
1. Balance works and rectification of defects at Library Building, Kirori Mal College, Delhi University
2. Renovation of existing Principal bungalow and Extension of administrative office at Kirori Mal College, Delhi University

Detailed tender documents containing terms and conditions, details of EMD etc. can be downloaded from KMC website kmcollege.ac.in and on CPPP site <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>

The last date of download is 16th February 2021 till 12.00 Noon.

Prof.Vibha Shrivastava Chauhan
Principal

Government of Jammu and Kashmir Directorate of Skill Development, J&K
Srinagar: Bypass Road, Bemina Srinagar 190018(May to Oct)
Phone: 0194-2491613 Fax 0194-2491668
Jammu: Polytechnic Premises, Vikram Chowk, Jammu 180004(Nov to April)
Phone: 0191-2435190 Fax 24513435

Subject:- Date extension Notice to NIT No. DSD/Pur/2020-21/597-600 dated 22-12-2020

Date Extension Notice
It is hereby informed to all the interested Bidders/participants the Bid submission date against NIT No. DSD/Pur/2020-21/597-600 dated 22-12-2020 for Hiring of consultancy for reviewing the courses offered by Govt. Polytechnics and ITIs of J&K issued by this Directorate is extended up to 30th of January 2021, 01-00 PM. The date of opening of the Bids will be on 30-01-2021 at 03.00 PM.

The terms and conditions shall remain same as contain in the tender document.

Sd/-(Sajad Hussain Ganai)KAS,
Director,
Skill Development, J&K, Jammu
(Chairman SLPC)

POWER MECH PROJECTS LIMITED
Reg Off: Plot No. 7, 7, Jubilee Enclave, Opposite Hitec, Madhapur, Hyderabad-81, Telangana. Ph:040 30444418, Fax:040 30444400.
E-mail: cs@powermech.net
Website: www.powermechprojects.com
CIN: L741407GT1999PLC032156

NOTICE OF BOARD MEETING
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 12th day of February, 2021, inter alia, to consider and approve the un audited financial results (standalone and consolidated) for the third quarter ended 31.12.2020.

The Trading Window for all designated persons as under "Power Mech Insider Trading Policy" has already been closed from 01.01.2021 and will remain closed till conclusion of 48 hours after the declaration of results for the third quarter ended 31.12.2020.

For Power Mech Projects Limited
Sd/-
S Kishore Babu
Chairman & Managing Director
Date: 01-02-2021
Place: Hyderabad
DIN: 00971313

DCB Bank Limited
Branch: 7/56, 3rd Floor, Desh Bandhu Gupta Road Karol Bagh, New Delhi - 110005
Website: www.dcbbank.com
Tel: (011) 45016060 / 45016055

AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER RULE 9(1) OF SARFAESI ACT
SALE Notice for sale of Immovable Assets Charged to the DCB BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 read with proviso to 8(6) of the security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and to the borrower, co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB Bank Limited. The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 on 21.09.2020. The property will be sold by tender cum public auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per the below details:-

The property will be sold "as is where is", "as is what is" and "Whatever there is" condition.

Name of the Borrower & Guarantors:	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)	Date & Time of Inspection	Date & Time of Auction
Madan Gopal/Prakash Chand/Saro Devi/Nand Lal				
DH 5/327 and MCF No. 145/159/152, Ward No. 8, Baniawarh, Disst Ballabhgarh, Faridabad Haryana - 121004	Rs. 96,00,000/-	Rs. 9,60,000/-	08-02-2021 11:30 AM To 4:00 PM	19-02-2021 12:30 PM To 4:00 PM

Type of Possession: Physical

Offers are invited in sealed envelope by the undersigned from the intending buyers / bidders for the purchase of the above said property. The interested buyer may send their offer for the above property in the sealed envelope along with Demand Draft in favor of "DCB Bank Limited", New Delhi toward the "Earnest Money Deposit" at DCB Bank Limited, 7/56, 3rd Floor, Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005 on or before 06:00 PM of 18-02-2021. The sealed offer will be opened on 19-02-2021 at 12:30 PM on the date of auction at above mentioned branch. The EMD is refundable without any interest if the bid is not successful. The intending buyer may inspect the property / asset latest by the date mentioned above for which they may contact **Mr. Pramod Chand** or **Mr. Shyamsunder Chandhok** (011) 45016298 / 45016060 and (011) 45016299. For detailed terms and conditions of the auction sale please refer to the link <https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner>

Sd/-
Authorized Officer
DCB Bank Limited
Date: 02.02.2021
Place: Faridabad (Haryana)

AXIS BANK POSSESSION NOTICE
Retail Assets Center : 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomi Nagar Extension Lucknow-226010
Corporate Office : 3rd Floor, Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhakar Marg, Worli, Mumbai-400 025
Registered Office : 'Trishul', 3rd floor, Opposite Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

Whereas the undersigned being the Authorized Officers of AXIS BANK LTD. under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets Enforcement Of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 9 of the Security interest (Enforcement) Rules, 2002 has issued Demand Notices under Section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules. The borrower/s mentioned here in below in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of AXIS BANK LTD. for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each account herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section (B) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sl. No.	Name & Address of the Borrower & Co-Borrower/s / Guarantor/s	Description of the Charge/ Mortgaged Property	Amount Outstanding
1	OP Infra Estate Private Limited (Borrower) Registered Office Shop Number 20, Block Number 25, Second Floor Shoes Market, Sanjay Place Agra U.P. 282002. Through its Directors Mr. Harsh Rohra (Guarantor) S/o Satram Das Rohra R/o House Number D- 561, Kamala Nagar, Thana Newagra, District.Agra, U.P. 282005. Mr. Pramod Kumar (Guarantor) S/o Pooran Dev Sharma R/o House No 64, Rajshree Garden, Amar Bagh, Dayal Bagh Agra, Uttar Pradesh 282005. Mr. Anurag Pathak (Guarantor) S/o Hriday Narayan Pathak R/o House Number A- 151 MIG, Shastri Puram, Sikendra District.Agra U.P. 282007 Mr. Dinesh Kumar (Guarantor) S/o Satram Das Rohra R/o House Number D- 561, Kamala Nagar, Thana Newagra, District.Agra, U.P. 282005. Mrs. Meena Sharma (Guarantor) W/o Pramod Kumar R/o House No. 64, Rajshree Garden, Amar Bagh, Dayal Bagh Agra, Uttar Pradesh 282005. Mr. Manish Kumar Sharma (Guarantor) S/o Prabhash Kumar Sharma R/o House Number 64, Aruna Nagar District Etah U.P. 201001 Mrs. Pragya Pathak (Guarantor) W/o Anurag Pathak R/o House Number A- 151 MIG, Shastri Puram, Sikendra District.Agra U.P. 282007 Mrs. Monica Rohra (Guarantor) W/o Harsh Rohra R/o House Number D- 561, Kamala Nagar, Thana Newagra, District.Agra, U.P. 282005	(1) All such pieces or parcels of a diverted land/ Residential Property including all flats available in multistoried Tower named as Grand Fort Tower (excluding the flats below mentioned Apartments, Part of Khra Number 825, Mauja Sikandra, Bahishtabad, Tehsil and District.Agra, U.P. 282007, Standing in the name of Ms OP Infraestate Pvt.Ltd. Please note that this SARFAESI Notice is not being issued with respect to Flat Number 401, 201, 103, 105, 102, 205, 204, 302, 310, 407, 404, 506 constructed over this land Measuring Area: 3687.00 Sq.Mtr. Note: Boundaries as per the Site. Boundaries: East: Others Colony, West: Road 40 Foot Wide, North: Others Apts, South: Rajshree Garden, Mauza Jagapur, Hari Parwal Ward, Dayal Bagh, Uttar Pradesh, India 282005, Standing in the name of Mrs Meena Sharma W/o Mr Pramod Kumar Sharma. Common Security with Home Loan Availed by Mrs Meena Measuring Area: 164.31 Sq.Mtr. Boundaries: East: Road 9Mt Wide, West- Park, North- Road 9M Mt Wide, South- Plot No. 64 (3) Situated at H. No.64, Rajshree Garden, Mauza Jagapur, Hari Parwal Ward, Dayal Bagh, Uttar Pradesh, India 282005 Standing In The Name of Mrs Meena Sharma W/o Mr Pramod Kumar Sharma. Common Security With Home Loan Availed By Mrs Meena. Measuring Area: 102.11 Sq.Mtr. Boundaries: East: Road 9 Mt Wide, West- Park, North-Plot No. 63, South- Plot No. 65 (4) EM of lease hold commercial property bearing Number 20 in the basement, Ground Floor, First Floor and Second Floor in Black Space Number 25 situated at Sanjay Place Commercial Complex Agra measuring 27.87 sq mt at each floor in the name of Mr Harsh Rohra and Mr Dinesh Kumar (Brother of Mr Harsh Rohra) Measuring Area: 27.87 Sq.Mtr. Boundaries: East: Footpath, West- Unit No. 1, North- common Stair Case And Water Tank, South- Unit No. 19	Rs. 1,38,36,394.55 (interest calculated up to 30.09.2020) with further interest + other expenses Demand Notice Date : 20.10.2020 Possession Date : 29.01.2021
2	Hotel Yamunaview Ltd. (Borrower) Registered Office -GF-72, Taimoor Nagar, New Delhi 110065 Through its Director Paramjeet Singh Also at: Work Address- 6 B, Mall Road, Baluaganj Crossing, Near Meher Tattkies Agra, 282001 Through its Director Paramjeet Singh Smt. Ranjita Kaur (Legal Heir(s) of Deceased Mr. Manjeet Singh) W/o Late Manjeet Singh Smt. Gutshan Kaur (Legal Heir(s) of Deceased Mr. Manjeet Singh) W/o Mohan Singh Mr. Surjeet Singh (Guarantor) S/o Mohan Singh Mr. Simranjeet Singh (Guarantor) S/o Paramjeet Singh R/o House No. 3/9- A, M.G. Road Opposite Subash Park Shahaganj, Agra, U.P. 282010	Situated at Commercial Property Ground Floor and First Floor Bearing Block Number 117/8, Sanjay Place Commercial Complex, Near Maruti Plaza, Sanjay Place Hari Parwal District.Agra U.P. 282002. Measuring Area: 883.38 Sq.Mtr. For Each Floor Boundaries: East: Footpath and Parking, West- Pedestrian & Cinema, North- Pedestrian, South - Footpath and Road	Rs. 87,15,301.27 (interest calculated up to 31.10.2020) with further interest + other expenses Demand Notice Date : 23.11.2020 Possession Date : 29.01.2021
3	Moon Network Private Limited (Borrower) Registered Office 2/47 Hotel East Lite Delhi Gate.Agra Uttar Pradesh, 282002. Through its Director Satnam Singh Aroora. Mrs. Ranjita Kaur (Legal Heir(s) of Deceased Mr. Manjeet Singh) W/o Late Manjeet Singh Mr. Surjeet Singh (Guarantor) S/o Mohan Singh Mr. Simranjeet Singh (Guarantor) S/o Mohan Singh R/o House No. 3/9 A, M.G. Road Opposite Subash Park Shahaganj, Agra, U.P. 282010	Situated at Commercial Property Ground Floor And First Floor Bearing Block Number 117/8, Sanjay Place Commercial Complex, Near Maruti Plaza, Sanjay Place Hari Parwal District.Agra U.P. 282002. Measuring Area: 883.38 Sq.Mtr. For Each Floor Boundaries: East: Footpath and Parking West- Pedestrian & Cinema North- Pedestrian South - Footpath and Road	Rs. 1,34,65,748.64 (interest calculated up to 31.08.2020) with further interest + other expenses Demand Notice Date : 09.11.2020 Possession Date : 29.01.2021

Date : 02.02.2021, Place : Lucknow (Authorized Officer), AXIS BANK LTD.

JSW HOLDINGS LIMITED
Regd. Off: Village: Vasinid, Taluka: Shahapur, District: Thane - 421 604
CIN: L67120MH2010PLC217751
Phone: 022 4286 1000 / 0227 220022 Fax: 022 4286 3000 / 0227 220020 Website: www.jsw.in

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 11th day of February, 2021, to inter alia, consider and take on record, amongst other business, the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Third Quarter and Nine Months ended 31st December, 2020 (Q3).

The said notice is also available on the company's website www.jswholdings.com and also available on BSE & NSE website.

For JSW Holdings Limited
Sd/-
Sanjay Gupta
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : February 01, 2021

MANGALAM CEMENT LIMITED
Regd. Office: P.O. Adityanagar 326520, Morak, Dist. Kota (Rajasthan)
CIN: L26943RJ1976PLC001705
Website: www.mangalamcement.com • email: shares@mangalamcement.com

PUBLIC NOTICE-LOSS OF SHARE CERTIFICATES
NOTICE is hereby given that following share certificates issued by the Company are stated to be lost / misplaced and the registered holders thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s):

Folio No.	Name of the Shareholder or Beneficiary	Share Certificate No.	Distinctive Numbers From To	No. of Shares
Z001633	TUSHAR / SHARH / NIRMALABEN J SHAH (DECEASED)	24864	3442501 3442550	50
8001173	Balukhandra Nandlal Gandhi / Rekha Balukhandra Gandhi	61748-61755	5286701 5287100	400

The Company will proceed to issue duplicate certificate(s) in respect of these shares, if no valid objection is received at its registered office at the address given above within 15 days from the date of publication of this notice.

For Mangalam Cement Limited
Sd/-
Manoj Kumar
Company Secretary

Date: 01.02.2021
Place: Morak

KOTLA HYDRO POWER PRIVATE LIMITED
CIN: U40101PB2001PTC024709
Registered Office: Killa Miri Hydro Power Project, Near Village Killa Hakimia, Dhuri, Punjab-148034
Corporate Office: B-37, Sector-1, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201301

Notice for Issue of Duplicate Share Certificate(s)
Notice is hereby given that the under-mentioned shares certificate(s) of the Company have been reported to be lost / mislaid and the Company has received a request from the holder(s) of these shares to issue duplicate Share Certificate(s).

Any person who has any interest or claim in these shares should lodge such a claim with the Company at its Registered Office within 15 days from the publication of this notice, failing which the Company shall proceed to issue duplicate Share Certificate(s).

Details of Equity Shares: Name(s) of Shareholder(s):
Stream Mill Limited (Folio No. 11), Total No. of Equity Shares 4,62,840, Certificate No. 6 for 100 shares (Distinctive Nos. 501-600), Certificate No. 15 for 2,33,330 shares (Distinctive Nos. 51,02,863 - 53,36,192), Certificate No. 16 for 99,410 shares (Distinctive Nos. 53,36,193 - 54,35,602), Certificate No. 17 for 1,30,000 shares (Distinctive Nos. 54,35,603 - 55,65,602).

For Kotla Hydro Power Private Limited
Sd/-
Place : Noida
Date : February 1, 2021
Company Secretary

K.C.P.SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED
Regd. Office: 'Ramakrishna Buildings', #239, Anna Salai, Chennai- 600006
CIN: L15421TN1995PLC033198
☎ 044-28555171-176 | ☎ 044-28546617
✉ secretarial@kcpssugar.com | www.kcpssugar.com

NOTICE
[Pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]]
NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, the 10th Day of February, 2021 at 3.30 p.m. through Video Conferencing** inter alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31/12/2020.

This information is also available in the Company's Website at www.kcpsugar.com and in the Websites of National Stock Exchange (www.nseindia.com) and Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com).

For K.C.P.Sugar and Industries Corporation Limited
Sd/-
R.Ganesan
Chief Financial Officer
Date: 02.02.2021
Place: Chennai

JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED
CIN: L74899DL1962PLC014411
Regd. Office: 208, Magnus House-II, Karampara Community Centre, New Delhi 110015
Website: www.jtel.co.in,
Email: jagatradingerpriseslimited@gmail.com

NOTICE
Pursuant to Provision of Regulation 47 and 29 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled on **Wednesday, 10th February, 2021**, to inter-alia, consider Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended 31st December

